

Please check whether you have got the right question paper.

- सूचना : १. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
२. उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक/उपप्रश्न क्रमांक आवश्यक लिखिए।

प्र.१ निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भसहित व्याख्या कीजिए :-

१६

- क) “नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं। हम उनके हैं; उनके लिए हैं।”

अथवा

“हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ, तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है। उसका हुक्म, हुक्म है। यदि वह कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी।”

- ख) “पुलिस द्वारा लूटी गई दुकानों तथा जलाए गए गाँव के गाँव में अपनी आँखों से देखें और मैं मंजूर करूँगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आँखों के सामने नाचते रहेंगे।”

अथवा

“मुझे जेलखाने का पता होता, तो मैं उन्हें क्यों बाहर जाने देती। सौ बहाने हैं, किसी न किसी बहाने हम जेल में घुस जाते। यहाँ लाख दुःख है, पर पेट का यह गड़ढा तो भर जाता है।”

प्र.२ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:-

३०

- च) “सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का ‘बकरी’ नाटक सफल राजनीतिक व्यंग्य नाटक है। इस कथन की समीक्षा कीजिए।

अथवा

‘बकरी’ नाटक के आधार पर दुर्जनसिंह की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

- छ) ‘राजा हमीर ने शरणार्थी की रक्ष करते हुए अपने कर्तव्य को किस प्रकार निभाया? समझाइए।

अथवा

रेल की पहियों की घड़घड़ाहट से जुड़ी मोती की स्मृतियों को लेखक ने किस प्रकार व्यक्त किया है? स्पष्ट कीजिए।

प्र.३ निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए:-

०९

प) 'बकरी' नाटक की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए।

फ) बुधरू का चरित्र-चित्रण कीजिए।

प्र.४ निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियाँ लिखिए:-

१०

ट) 'बकरी' नाटक का सिपाही।

अथवा

'बकरी' नाटक की भाषा-शैली।

ठ) मेरी स्परिडोनोवा।

अथवा

अकीला एक स्वाभिमानी नारी।

प्र.५ निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए :-

१०

- १) बकरी कितने अंको का नाटक है?
- २) बकरीवाद पर भाषण देने कौन देश-विदेश जाने की सोचता है?
- ३) नट को किससे डर लगता है?
- ४) जमींदार का बेटा चुनाव चिन्ह के रूप में किसे चुनता है?
- ५) भिश्ती की मशक किससे बनी हुई थी?
- ६) शहर तुबरेज़ में किसे फँसी दे दी गई?
- ७) अंतिम साँस लेने से पहले किसने 'जय हिन्द' का नारा लगाया?
- ८) १७ फरवरी १६०० को किसे जलती चिता में झोंक दिया गया?
- ९) अकिला के ससुर का नाम क्या था?
- १०) बुधरू, पुनिया और उनके साथियों ने किसकी सौगंध खायी?